

तुरंत रिलीज के लिए

ब्रैम्पटन रीजनल काउंसलर रोएना सैंटोस को एफ.सी.एम. के 2020-2021

के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लिए चुना गया

ब्रैम्पटन, ओनटारियो (15 अक्टूबर, 2020) – आज, फेडरेशन ऑफ कॅनेडियन म्युनिसिपल्टीज (एफ.सी.एम.) (Federation of Canadian Municipalities) (FCM) ने घोषणा की कि ब्रैम्पटन रीजनल काउंसलर रोएना सैंटोस (Rowena Santos) को एक वर्ष की टर्म के लिए [फेडरेशन ऑफ कॅनेडियन म्युनिसिपल्टीज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स \(Federation of Canadian Municipalities Board of Directors\)](#) के लिए चुना गया है।

डायरेक्टर चुनाव, 5-7 अक्टूबर को हुए थे और आज, एफ.सी.एम. (FCM) की वार्षिक जनरल मीटिंग (Annual General Meeting) में इनकी पुष्टि की गई।

एफ.सी.एम., 1901 से कॅनेडा की म्युनिसिपल सरकार की राष्ट्रीय आवाज़ रही है। इसके मेम्बर्स में कॅनेडा के शहरों और ग्रामीण समुदायों से लेकर, उत्तरी समुदायों और 20 प्रांतीय और इलाके की म्युनिसिपल एसोसिएशन्स तक, हर आकार की 2,000 से अधिक म्युनिसिपल्टीज शामिल हैं। इकट्ठे मिलकर, वे तीनों तरफ के तटों के सभी कॅनेडा निवासियों की 90 प्रतिशत आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं। हर वर्ष, पूरे कॅनेडा के म्युनिसिपल लीडर, मुख्य मुद्दों पर एफ.सी.एम. की नीति तय करने के लिए इकट्ठे होते हैं।

ब्रैम्पटन की सिटी काउंसिल (City Council) की कार्यवाहियां और [टर्म ऑफ काउंसिल प्रायोरिटीज \(Term of Council Priorities\)](#) तीनों तरफ के तटों की कई कॅनेडियन म्युनिसिपल्टीज की प्राथमिकताओं को दर्शाते हैं, जिनमें शामिल हैं, वहनीय घर, ट्रांज़िट, जलवायु संबंधी कार्यवाही, विविधता का जश्न मनाना और एंटी-जातिवाद नीति लागू करना और सुरक्षित रूप से अर्थव्यवस्था को दुबारा शुरू करने के लिए कारोबारियों और समुदायों के लिए कोविड-19 (COVID-19) मदद।

हवाले

“ब्रैम्पटन, ग्रामीण टाउन से, उपनगर समुदाय में विकसित हुआ है और अब यह, कॅनेडा में नौवीं सबसे बड़ी म्युनिसिपल्टी के तौर पर एक जोशीले शहरी केंद्र में बदल रहा है। कई अन्य म्युनिसिपल्टीज की तरह ही, उस सफर में हमने चुनौतियों का सामना किया है और अब भी कर रहे हैं लेकिन हमने इस दौरान बहुत कुछ सीखा है। समाधान साझे करने के लिए और जिन निवासियों के लिए हम काम करते हैं, उनकी हिमायत करने के लिए पूरे देश के साथी म्युनिसिपल लीडर्स के साथ एफ.सी.एम. के बोर्ड की सदस्य होना, सम्मान और विशेषाधिकार है। मैं मेहनत करने और वह सब कुछ करने के लिए उत्साहित हूँ, जो हम ब्रैम्पटन, हमारे सभी टाउन्स और शहरों की हिमायत के लिए कर सकते हैं। जब हमारे टाउन और शहर विकसित होते हैं, तो हमारा देश विकसित होता है।”

– रोएना सैंटोस (Rowena Santos), रीजनल काउंसलर, वार्ड्स 1 और 5, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

“कई वर्षों तक एफ.सी.एम. ने कॅनेडियन समुदायों की जरूरतों की हिमायत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। काउंसिल की ओर से, मुझे गर्व है कि काउंसलर सैंटोस को इस पद पर हमारे शहर के लिए काम करने के लिए चुना गया है। मुझे यकीन है कि उनकी संचालन

और प्रतिबद्धता यह सुनिश्चित करेगी कि ब्रैम्पटन के निवासियों और पील रीजन के निवासियों की आवाज़ सुनी जाए और प्रभावशाली ढंग से ऐसे नतीजे प्रदान करे, जो रोज़ाना हमारे समुदाय पर असर डालने वाले हों।”

– पैट्रिक ब्राउन (Patrick Brown), मेयर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

-30-

कैनेडा में सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाले शहरों में से एक के तौर पर, ब्रैम्पटन 650,000 लोगों और 70,000 कारोबारियों का घर है। हम जो भी करते हैं, लोगों को ध्यान में रखते हुए करते हैं। हम अपने विविध समुदायों से उत्साहित होते हैं, हम निवेश को आकर्षित करते हैं और हम तकनीक और वातावरण संबंधी नवीनता को आगे बढ़ाने के सफर पर हैं। हम एक ऐसा स्वस्थ शहर बनाने में प्रगति के लिए सहभागिता करते हैं, जो सुरक्षित, स्थिर व सफल हो। हमारे साथ [Twitter](#), [Facebook](#), और [Instagram](#) पर जुड़ें। www.brampton.ca पर और जानें।

मीडिया संपर्क

मोनिका दुग्गल (Monika Duggal)

कोऑर्डिनेटर, मीडिया एंड कम्युनिटी एन्गेजमेंट

स्ट्रैटजिक कम्युनिकेशन

सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca